

श्री राम नाथ ठाकुर: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, चूंकि उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 68 लाख शौचालय बने, इनमें से कितने शौचालय बिहार के कितने स्कूलों में बने?

श्री राम कृपाल यादव: सर, हमारा डिपार्टमेंट "स्वच्छ भारत मिशन" अभियान के तहत मॉनिटरिंग करता है, उसके आंकड़े मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताए। स्कूलों में जो शौचालयों का निर्माण हुआ है, उसके आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मॉनिटर होते हैं और अभी जो सरकारी उपक्रम के माध्यम से शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, जिसके बारे में मैंने कहा कि यह पूरे देश में लगभग 4 लाख से अधिक बनाए गए हैं, उसमें बिहार भी है। चूंकि अभी मेरे पास बिहार के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को बाद में यह जानकारी दे दूंगा।

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य को यह सूचना दे दीजिएगा।

श्री राम कृपाल यादव: जी हां, सर। मैं यह सूचना माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

Four-laning of Ramban-Banihal highway in J and K

*169.SHRI SHAMSHER SINGH MANHAS: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has any plan for four-laning of the highway from Ramban to Banihal in Jammu and Kashmir;

(b) if so, by when work would start and which agency has been assigned the work for it and what would be its completion period; and

(c) what are the reasons for the delay, if any, in awarding the work?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The work for four-laning of Ramban to Banihal section of National Highway-44 has already been awarded to M/s Hindustan Construction Company and work has started *w.e.f.* 28.12.2015. The completion period for the project is 03 year and 06 months as per Contract Agreement.

(c) Due to poor response from the bidders on Public Private Partnership mode, the project could not be awarded earlier. Keeping in view the importance of the stretch, Government decided to execute the work as a Public Funded Project. Accordingly,

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 21.01.2015 approved the project to be implemented on Engineering Procurement Construction (EPC) mode.

श्री शमशेर सिंह मन्हास: सर, मैं जम्मू और कश्मीर प्रदेश से आता हूँ, यह प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है और खास करके कश्मीर को हमेशा मुकुट मणि कहा जाता है। कश्मीर जाने का जो रास्ता है... मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या रामबन से बनिहाल तक फोर लेन बनाने की कोई योजना है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी मंजूर हो गया है। इसके ऊपर वर्ष 2009 से कार्रवाई शुरू की गई थी, पर बीओटी में कोई नहीं आया। फिर हमारी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 2,170 करोड़ रुपये बढ़ी, उसके बाद इसका टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, प्रधान मंत्री के द्वारा इसका भूमि पूजन भी हुआ और इसके कार्य की शुरुआत हुई है। सर, इसमें 6 टनल्स और 6 मेजर ब्रिजेज हैं। सर, वहां काम करने में काफी कठिनाइयां हैं, क्योंकि वहां काफी कठिन रास्ता है, फिर भी काम की शुरुआत हुई है और समय पर उसको पूरा करने की हमारी कोशिश होगी।

श्री शमशेर सिंह मन्हास: सर, जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं कि इन्होंने काम शुरू कर दिया है और उसका भूमि पूजन भी हुआ है, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह फोर-लेन का रास्ता बन जाने के बाद कब तक शुरू हो जाएगा? उस काम में कौन सी एजेंसी लगी है, जो उसको बना रही है? वह काम कब तक पूरा हो जाएगा? यानी, वह कब शुरू होगा, समाप्त कब होगा और वह किस एजेंसी के द्वारा बनाया जा रहा है?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, मुझे मिली जानकारी के अनुसार इसका काम शुरू हो चुका है। यह काम lowest standard Hindustan Construction Company का था। हमने दिनांक 9.9.2015 को उनको वर्क ऑर्डर दिया है और उन्होंने मोबिलाइजेशन भी किया है। जब यह प्रश्न आया, तो मैंने आज फिर वहां से इस बारे में कंफर्म किया है। वहां रोड़ पर मशीनरी लगी हुई है और कार्य की शुरुआत भी हो गई है। इसकी कालवधि 3 साल 6 महीने की है और हम इससे पहले इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

Plantation under SAGY

*170.SHRI LAL SINH VADODIA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has any plans to undertake more plantation under the Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY);

(b) whether Government also plans to provide vegetables and fruit plants to people under SAGY through the forest department; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.